



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13082024-256311

CG-DL-W-13082024-256311

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16]

नई दिल्ली, अगस्त 4—अगस्त 10, 2024, शनिवार/श्रावण 13—श्रावण 19, 1946

No. 16]

NEW DELHI, AUGUST 4—AUGUST 10, 2024, SATURDAY/SHRAVANA 13—SHRAVANA 19, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

आ.अ. 85.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री मुकेश कुमार मीना] आई.ए.एस., के स्थान पर श्री विवेक यादव, आई.ए.एस. (ए.पी: 2008) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री विवेक यादव, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री विवेक यादव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश के रूप में कार्य करते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/AP/2024-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

O.N. 85.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby designates Shri Vivek Yadav, IAS (AP: 2008) as the Chief Electoral Officer for the State of Andhra Pradesh with immediate effect and until further orders in place of Shri Mukesh Kumar Meena, IAS.

2. Shri Vivek Yadav cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Andhra Pradesh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Vivek Yadav while functioning as the Chief Electoral Officer, Andhra Pradesh shall not hold any additional charges whatsoever under the Government of Andhra Pradesh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/AP/2024-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

आ.अ. 86.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना सं/464 .गोवा-वि 2022/स.दिनांक 21 जनवरी, 2022, के जरिए गोवा के -17सँकेलिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिला चुनाव अधिकारी के पास अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गए खाते की सही प्रति होगी; और

यतः,-17 सँकेलिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 9 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा द्वारा पत्र सं. 5-39-2022/ELEC/765 दिनांक 18 अगस्त, 2022 के जरिए अग्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार श्री सूनिल सुरेश फुलारी, जो गोवा विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र -17सँकेलिम से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री सूनिल सुरेश फुलारी, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/GOA-LA/17/2022/CEMS-IV दिनांक 21 सितम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री सूनिल सुरेश फुलारी, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला चुनाव अधिकारी, उत्तरी गोवा ने पत्र संख्या 5-59-2021/ईएलएन/मुख्य/810 दिनांक 30 नवम्बर,

2023 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सीईओ, गोवा द्वारा पत्र संख्या 5-39-2022/ईएलईसी/1935 दिनांक 05 फरवरी, 2024 के माध्यम से अग्रेषित करके सूचित किया है कि उक्त नोटिस उम्मीदवार को 27 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुआ है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा, द्वारा अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा पत्र सं 04-1-2024/ELEC/1540 दिनांक 24 मई, 2024 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री सूनिल सुरेश फुलारी, ने भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के बाद भी न तो कोई अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय के खाते का कोई विवरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्री सूनिल सुरेश फुलारी ने कानून के तहत निर्धारित खाते को दर्ज करने में विफलता के लिए भारत के चुनाव आयोग को न तो कोई कारण और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सूनिल सुरेश फुलारी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि गोवा राज्य के-17 सैंकेलिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से गोवा राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सूनिल सुरेश फुलारी, मकान नं. 897, कॉटेज अस्पताल के पास सांखली, तालुका बिचोलिम गोकुलवाड़ी, सैंकेलिम, उत्तरी गोवा, गोवा-403505, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/ गोवा - वि.स./17/2022/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

Election Commission of India

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2024

O.N. 86.—WHEREAS, the General Election for 17-Sanquelim Assembly Constituency of Goa, 2022 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/GOA-LA/2022 dated 21st January, 2022; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **17-Sanquelim** Assembly Constituency of Goa, was declared by the Returning Officer on **10th March, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **9th April, 2022**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North Goa and forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa vide their letter no. **5-39-2022/ELEC/765 dated 18 August, 2022**, **Sh. Sunil Suresh Fulari**, a contesting candidate from **17-Sanquelim** Assembly Constituency of Goa, 2022, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/GOA-LA/17/2022/CEMS-IV, dated 21st September, 2022** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Sunil Suresh Fulari**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Sunil Suresh Fulari**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, North Goa within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa has submitted his report vide letter No.**5-59-2021/ELN/Main/810 dated 30th November, 2023** and the CEO, Goa has forwarded it vide letter No.**5-39-2022/ELEC/1935 dated 05th February, 2024** informing that the said notice has been received by the candidate on **27th October, 2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa in his Supplementary Report dated **21st May, 2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa, vide letter no. **4-1-2024/ELEC/1540 dated 24th May, 2024** has reported that **Sh. Sunil Suresh Fulari** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses even after receipt of the Show Cause Notice dated **21st September, 2022** of the Election Commission of India; and

WHEREAS, after receipt of the said notice, **Sh. Sunil Suresh Fulari** has neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Sunil Suresh Fulari** has failed to lodge account of election expenses and has not furnished any reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Sunil Suresh Fulari resident of H. No. 897, Near Cottage Hospital, Sankhali, Taluka Bicholim, Gokulwadi, Sanquelim, North Goa, Goa-403505**, a contesting candidate from **17-Sanquelim** Assembly Constituency of the State of Goa in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/GOA-LA/17/2022/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

आ.अ. 87.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना सं. 464/गोवा-वि.स./2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022, के जरिए गोवा के -14सैंट आंद्रे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिला चुनाव अधिकारी के पास अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गए खाते की सही प्रति होगी; और

यतः, -14 सैंट आंद्रे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 9 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा द्वारा पत्र सं .5-39-2022/ELEC/765 दिनांक 18 अगस्त, 2022 के जरिए अग्रेषित की गईरिपोर्ट के अनुसार श्री जगदीश भोबे , जो गोवा विधान सभा का साधारण निर्वाचन2022 के निर्वाचन क्षेत्र -14सैंटआंद्रेसे लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ;और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री जगदीश भोबे, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/GOA-LA/14/2022/CEMS-IV दिनांक21 सितम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री जगदीश भोबे, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी ,उत्तरी गोवा को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला चुनाव अधिकारी, उत्तरी गोवा ने पत्र संख्या 5-59-2021/ईएलएन/मुख्य/810 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सीईओ, गोवा द्वारा पत्र संख्या 5-39-2022/ईएलईसी/1935 दिनांक 05 फरवरी, 2024 के माध्यम से अग्रेषित करके सूचित किया है कि उक्त नोटिस उम्मीदवार को 14 अक्टूबर, 2022 को प्राप्त हुआ है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी ,उत्तरी गोवा, द्वारा अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा पत्र सं 04-1-2024/ELEC/1540 दिनांक 24 मई, 2024 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री जगदीश भोबे ,ने भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 21सितम्बर, 2022 के कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के बाद भी न तो कोई अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय के खाते का कोई विवरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्री जगदीश भोबे ने कानून के तहत निर्धारित खाते को दर्ज करने में विफलता के लिए भारत के चुनाव आयोग को न तो कोई कारण और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जगदीश भोबे अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (ग) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (घ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि गोवा राज्य के-14 सेंटेंड्रेविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से गोवा राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री जगदीश भोबे, मकान नंबर -549, फोरगोटेम, गोवा वेल्लहा तीसवादी, उत्तरी गोवा, गोवा - 403108, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/ गोवा. वि.स./14/2022/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2024

O.N. 87.—WHEREAS, the General Election for **14-St. Andre** Assembly Constituency of Goa, 2022 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/GOA-LA/2022 dated 21st January, 2022; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **14-St. Andre** Assembly Constituency of Goa, was declared by the Returning Officer on **10th March, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **9th April, 2022**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North Goa and forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa vide their letter no. **5-39-2022/ELEC/765 dated 18 August, 2022, Sh. Jagdish Bhoobe**, a contesting candidate from **14-St. Andre** Assembly Constituency of Goa, 2022, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/GOA-LA/14/2022/CEMS-IV, dated 21st September, 2022** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Jagdish Bhoobe**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Jagdish Bhoobe**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, North Goa within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa has submitted his report vide letter No. **5-59-2021/ELN/Main/810 dated 30th November, 2023** and the CEO, Goa has forwarded it vide letter No. **5-39-**

2022/ELEC/1935 dated 05th February, 2024 informing that the said notice has been received by the candidate on **14th October, 2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa in his Supplementary Report dated **21st May, 2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa, vide letter no. **4-1-2024/ELEC/1540 dated 24th May, 2024** has reported that **Sh. Jagdish Bhobe** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses even after receipt of the Show Cause Notice dated **21st September, 2022** of the Election Commission of India; and

WHEREAS, after receipt of the said notice, **Sh. Jagdish Bhobe** has neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Jagdish Bhobe** has failed to lodge account of election expenses and has not furnished any reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(c) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

(d) *has no good reason or justification for the failure,*

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Jagdish Bhobe** resident of **H. No.549, Forgotem Goa Velha Tiswadi, North Goa, Goa - 403108**, a contesting candidate from **14-St. Andre** Assembly Constituency of the State of Goa in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/GOA-LA/14/2022/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

आ.अ. 88.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना सं/464 .गोवा-वि 2022/स.दिनांक 21 जनवरी, 2022 ,के जरिए गोवा के -04तिविम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2022की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, जिला चुनाव अधिकारी के पास अपने चुनाव खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके चुनाव एजेंट द्वारा रखे गए खाते की सही प्रति होगी; और

यतः,-04 तिविम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा **10 मार्च, 2022** को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख **9 अप्रैल, 2022** थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा द्वारा पत्र सं . **5-39-2022/ELEC/765 दिनांक 18 अगस्त, 2022** के जरिए अग्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार **श्री गॉडफ्रे डलिमा** ,जो गोवा विधान सभा का साधारण निर्वाचन2022 के निर्वाचन क्षेत्र -04तिविम से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ;और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री गॉडफ्रे डलिमा, को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/GOA-LA/4/2022/CEMS-IV दिनांक 21 सितम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री गॉडफ्रे डलिमा, को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला चुनाव अधिकारी, उत्तरी गोवा ने पत्र संख्या 5-59-2021/ईएलएन/मुख्य/810 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और सीईओ, गोवा द्वारा पत्र संख्या 5-39-2022/ईएलईसी/1935 दिनांक 05 फरवरी, 2024 के माध्यम से अग्रेषित करके सूचित किया है कि उक्त नोटिस उम्मीदवार को 30 सितम्बर, 2022 को प्राप्त हुआ है; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरी गोवा, द्वारा अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2024 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा पत्र सं 04-1-2024/ELEC/1540 दिनांक 24 मई, 2024 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री गॉडफ्रे डलिमा, ने भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 21 सितम्बर, 2022 के कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के बाद भी न तो कोई अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय के खाते का कोई विवरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद, श्री गॉडफ्रे डलिमा ने कानून के तहत निर्धारित खाते को दर्ज करने में विफलता के लिए भारत के चुनाव आयोग को न तो कोई कारण और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री गॉडफ्रे डलिमा अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- (ङ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (च) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि गोवा राज्य के-04 तिविम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से गोवा राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री गॉडफ्रे डलिमा, मकान नंबर -1064, थिविम लिमाथोर्ड, बर्देज़ - गोवा - 403101, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[फा. सं. 76/ गोवा - वि.स./4/2022/सीईएमएस-IV]

आदेश से,

बिनोद कुमार, सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th July, 2024

O.N. 88.—WHEREAS, the General Election for **04-Tivim** Assembly Constituency of Goa, 2022 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/GOA-LA/2022 dated 21st January, 2022**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer, an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **04-Tivim** Assembly Constituency of Goa, was declared by the Returning Officer on **10th March, 2022** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **9th April, 2022**; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, North Goa and forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa vide their letter no. **5-39-2022/ELEC/765 dated 18th August, 2022**, **Sh. Godfrey D'Lima**, a contesting candidate from **04-Tivim** Assembly Constituency of Goa, 2022, has failed to lodge account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said reports of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. **76/GOA-LA/4/2022/CEMS-IV, dated 21st September, 2022** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Godfrey D'Lima**, for not lodging of account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Godfrey D'Lima**, was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, North Goa within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa has submitted his report vide letter No.**5-59-2021/ELN/Main/810 dated 30th November, 2023** and the CEO, Goa has forwarded it vide letter No.**5-39-2022/ELEC/1935 dated 05th February, 2024** informing that the said notice has been received by the candidate on **30th September, 2022**; and

WHEREAS, the District Election Officer, North Goa in his Supplementary Report dated **21st May, 2024** forwarded by the Chief Electoral Officer, Goa, vide letter no. **4-1-2024/ELEC/1540 dated 24th May, 2024** has reported that **Sh. Godfrey D'Lima** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses even after receipt of the Show Cause Notice dated **21st September, 2022** of the Election Commission of India; and

WHEREAS, after receipt of the said notice, **Sh. Godfrey D'Lima** has neither furnished any reason nor any explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account of election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Godfrey D'Lima** has failed to lodge account of election expenses and has not furnished any reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(e) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(f) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Godfrey D'Lima** resident of **H.N.1064, Thivim Limathord, Bardez-Goa-403101**, a contesting candidate from **04-Tivim** Assembly Constituency of the State of Goa in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No. 76/GOA-LA/4/2022/CEMS-IV]

By Order,

BINOD KUMAR, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

आ.अ. 89.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उड़ीसा राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री निकुंज बिहारी ढाल, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री आर. सन्थानागोपालन, आई.ए.एस. (ओ.आर: 2001) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री आर. सन्थानागोपालन, उड़ीसा सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री आर. सन्थानागोपालन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उड़ीसा के रूप में कार्य करते हुए उड़ीसा सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/OR/2024-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2024

O.N. 89.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Odisha hereby designates Shri R. Santhanagopalan, IAS, (OR: 2001) as the Chief Electoral Officer for the State of Odisha with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Nikunja Bihari Dhal, IAS.

2. Shri R. Santhanagopalan shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Odisha, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri R. Santhanagopalan while functioning as the Chief Electoral Officer, Odisha shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Odisha except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/OR/2024-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.